



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 2, 2009/पौष 12, 1930

No. 5]

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 2, 2009/PAUSA 12, 1930

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 जनवरी, 2009

सं. 01/2009-सीमा शुल्क (गै.टै.)

सा.का.नि. 7(अ).—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 75 की उप-धारा (2), केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 37 की उप-धारा (2) तथा वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) की धारा 93क तथा धारा 94 की उप-धारा (2) के साथ पठित सीमा शुल्क केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर प्रतिअदायगी नियमावली, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 103/2008-सीमा शुल्क (गै.टै.) दिनांक 29 अगस्त, 2008 जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड-3, उप-खण्ड (i) में सं. सा.का.नि. 627(अ), दिनांक 29 अगस्त, 2008 को प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है, नामशः :—

उपर्युक्त अधिसूचना में, अध्याय 64 अनुसूची में टैरिफ मद सं. 640402 एवं इनसे संबंधित प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित टैरिफ मर्दे एवं प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, नामशः :—

640402	लेदर-कम-सिंथेटिक/टेक्सटाइल सामग्री के बूट/हॉफ बूट्स/जूते	जोड़ी	10.5%	110	2.2%	23
640403	लेदर-कम-सिंथेटिक/टेक्सटाइल सामग्री के सैंडल	जोड़ी	9.3%	50	2.0%	10
640404	अन्य		1%		1%	

[फा. सं. 609/282/2008-डीबीके]

एस. आर. मीना, अवर सचिव

टिप्पणी :—मूल अधिसूचना संख्या 103/2008-सीमा शुल्क (गै.टै.), भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में सं. सा. का.नि. 627(अ), दिनांक 29 अगस्त, 2008 को प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd January, 2009

No. 01/2009-Customs (N.T.)

G.S.R. 7(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 75 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), sub-section (2) of Section 37 of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944), and Section 93A and sub-section (2) of Section 94 of the Finance Act, 1994 (32 of 1994), and in pursuance of rules 3 and 4 of the Customs, Central Excise Duties and Service Tax Drawback Rules, 1995, the Central Government, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 103/2008-Customs (N.T.), dated the 29th August, 2008 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 627(E) dated the 29th August, 2008, namely :—

In the said notification, in the Schedule, in Chapter 64, for tariff item 640402 and the entries relating thereto, the following tariff items and the entries shall be substituted, namely :—

640402	Boots/half boots/shoes of leather-cum - synthetic/textile materials	pair	10.5%	110	2.2%	23
640403	Sandals of leather-cum - synthetic/textile materials	pair	9.3%	50	2%	10
640404	Others		1%		1%	

[F. No. 609/282/2008-DBK]

S. R. MEENA, Under Secy.

Note: The Principal notification No. 103/2008-Customs (N.T.) was published in the Gazette of India, *vide* Number G.S.R. 627(E), published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) dated the 29th August, 2008.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 जनवरी, 2009

सं. 02/2009-सीमाशुल्क (गै.टै.)

सा.का.नि. 8(अ).—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 75 की उप-धारा (2) और (3) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 37 की उप-धारा (2) और (2क) तथा वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) की धारा 93क तथा धारा 94 की उप-धारा (2) एवं (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा सीमा शुल्क केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर प्रतिअदायगी नियमावली, 1995 के नियम 3, 4 और 5 के अनुसरण में केन्द्र सरकार एतद्वारा भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 103/2008-सीमा शुल्क (गै.टै.) दिनांक 29 अगस्त, 2008 जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में सं. सा.का.नि. 627(अ) दिनांक 29 अगस्त, 2008 को प्रकाशित किया गया था, में दिनांक 1 सितम्बर, 2008 से निम्नलिखित संशोधन करती है, नामशः :—

(क) अध्याय 52 में,—

(i) टैरिफ मद 520501, के सामने कॉलम 5 में प्रविष्टि के लिए, प्रविष्टि “12” प्रतिस्थापित की जाएगी ;

(ii) टैरिफ मद 520502 के सामने कॉलम 5 में प्रविष्टि के लिए, प्रविष्टि “16” प्रतिस्थापित की जाएगी ;

(ख) अध्याय 54 में, टैरिफ मद 540201 और 540202 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित टैरिफ मदें और प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, नामशः :—

540201	ऐसे विनिर्माता द्वारा जिसके कारखाने (संयंत्र एवं उपस्कर सहित) में अध्याय 54 के फिलामेंट यार्न के विनिर्माण की सुविधा नहीं है, बाहर से उपरिजित टर्मिनल उत्पाद शुल्क प्रदत्त फिलामेंट यार्न से विनिर्मित पालिएस्टर टैक्सटाराइज्ड/द्विस्टिड यार्न (ग्रे)	कि. ग्रा.	10.5%	15	2.2%	29
540202	ऐसे विनिर्माता द्वारा जिसके कारखाने (संयंत्र एवं उपस्कर सहित) में अध्याय 54 के फिलामेंट यार्न के विनिर्माण की सुविधा नहीं है, बाहर से उपरिजित टर्मिनल उत्पाद शुल्क प्रदत्त फिलामेंट यार्न से विनिर्मित पालिएस्टर टैक्सटाराइज्ड/द्विस्टिड यार्न (डाइड)	कि. ग्रा.	12.2%	20	2.6%	38
540203	अन्य (ग्रे)	कि.ग्रा.	2.2%	29	2.2%	29
540204	अन्य (डाइड)	कि.ग्रा.	2.6%	38	2.6%	38

[स्पष्टीकरण : टैरिफ मद 540201 और 540202 के उद्देश्यों के लिए 'फिलामेंट यार्न के विनिर्माण' का अर्थ निम्न द्वारा उत्पादित आर्गेनिक पालिमेर के फिलामेंट के विनिर्माण से है,—

(क) आर्गेनिक मोनोमर्स के पोलिमेराइजेशन जैसे पोलियामाइड्स, पालिएस्टर, पालियूरीथिन्स या पालिविनायल डेरेवेटिव्स, अथवा

(ख) प्राकृतिक आर्गेनिक पालिमेरों (सेलूलोज, केसीन, प्रोटीन या एल्गे) जैसे विस्कोज रेयान, सेलुलोजऐसीटेट, क्यूप्रो या एल्मीनेट्स के रासायनिक परिवर्तन द्वारा]

(ग) अध्याय 60 में,—

(i) टैरिफ मद सं. 600101, 600102 और 600103 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के लिए, निम्नलिखित टैरिफ मदें और प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, नामशः :—

600101	ऊन का	कि. ग्रा.	5.8%	19.8	3.1%	10.6
600102	मानव निर्मित रेशे का	कि. ग्रा.	8.9%	24.6	1.2%	3.3
600103	सूत एवं अन्य का	कि. ग्रा.	5%	15.6	1%	3.4

(ii) टैरिफ मद सं. 600201, 600202 और 600203 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के लिए, निम्नलिखित टैरिफ मदें और प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, नामशः :—

600201	ऊन का	कि. ग्रा.	5.8%	19.8	3.1%	10.6
600202	मानव निर्मित रेशे का	कि. ग्रा.	8.9%	24.6	1.2%	3.3
600203	सूत एवं अन्य का	कि. ग्रा.	5%	15.6	1%	3.4

(iii) टैरिफ मद सं. 600301, 600302 और 600303 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के लिए, निम्नलिखित टैरिफ मदें और प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, नामशः :—

600301	ऊन का	कि. ग्रा.	5.8%	19.8	3.1%	10.6
600302	मानव निर्मित रेशे का	कि. ग्रा.	8.9%	24.6	1.2%	3.3
600303	सूत एवं अन्य का	कि. ग्रा.	5%	15.6	1%	3.4

(iv) टैरिफ मद सं. 600401, 600402 और 600403 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के लिए, निम्नलिखित टैरिफ मदें और प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, नामशः :—

600401	ऊन का	कि. ग्रा.	5.8%	19.8	3.1%	10.6
600402	मानव निर्मित रेशे का	कि. ग्रा.	8.9%	24.6	1.2%	3.3
600403	सूत एवं अन्य का	कि. ग्रा.	5%	15.6	1%	3.4

(v) टैरिफ मद सं. 600501, 600502 और 600503 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के लिए, निम्नलिखित टैरिफ मदें और प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, नामशः :—

600501	ऊन का	कि. ग्रा.	5.8%	19.8	3.1%	10.6
600502	मानव निर्मित रेशे का	कि. ग्रा.	8.9%	24.6	1.2%	3.3
600503	सूत एवं अन्य का	कि. ग्रा.	5%	15.6	1%	3.4

(vi) टैरिफ मद सं. 600601, 600602 और 600603 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के लिए, निम्नलिखित टैरिफ मदें और प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, नामशः :-

600601	ऊन का	कि. ग्रा.	5.8%	19.8	3.1%	10.6
600602	मानव निर्मित रेशे का	कि. ग्रा.	8.9%	24.6	1.2%	3.3
600603	सूत एवं अन्य का	कि. ग्रा.	5%	15.6	1%	3.4

(घ) अध्याय 82 में,—

(i) टैरिफ मद सं. 8201 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के लिए, निम्नलिखित टैरिफ मद और प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, नामशः :-

8201	हाथ के औजार, निम्नलिखित, फावड़े, बेलचे, गैंती, खोदनी, कि.ग्रा.	10%	7.5	1.2%	0.85
	हो, काटे एवं फंचा, कुल्हाड़ी, बिलबुक एवं अन्य टूटयूविंग उपकरण, सिकेटर्स एवं पूनर्स किसी भी तरह के, दरांती एवं हसिए, घास के चाकू, हैज शीयर्स, कृषि, बागवानी एवं वानिकी में प्रयुक्त टिंबर वेज एवं अन्य उपकरण।				

(i) टैरिफ मद सं. 821101, के सामने कॉलम 5 में प्रविष्टि के लिए, प्रविष्टि "28" प्रतिस्थापित की जाएगी ;

(ii) टैरिफ मद सं. 821401, के सामने कॉलम 5 में प्रविष्टि के लिए, प्रविष्टि "28" प्रतिस्थापित की जाएगी ;

(iii) टैरिफ मद सं. 821501, के सामने कॉलम 5 में प्रविष्टि के लिए, प्रविष्टि "28" प्रतिस्थापित की जाएगी ;

(ड) अध्याय 87 में, मद सं. 871201, के सामने कॉलम 5 में प्रविष्टि के लिए प्रविष्टि "240" प्रतिस्थापित की जाएगी।

[फा. सं. 609/282/2008-डीबीके]

एस. आर मीना, अवर सचिव

टिप्पणी : मूल अधिसूचना सं. 103/2008 सीमा शुल्क (गै.टै.), भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में सं. सा.का.नि. 627(अ), दिनांक 29 अगस्त, 2008 के तहत प्रकाशित की गई थी।

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd January, 2009

No. 2/2009-CUSTOMS (N.T.)

G.S.R. 8(E).— In exercise of the powers conferred by sub-sections (2) and (3) of Section 75 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), sub-sections (2) and (2A) of Section 37 of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944), and Section 93A and sub-sections (2) and (3) of Section 94 of the Finance Act, 1994 (32 of 1994), and in pursuance of rules 3, 4 and 5 of the Customs, Central Excise Duties and Service Tax Drawback Rules, 1995, the Central Government, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.103/2008-Customs (N.T.), dated the 29th August, 2008 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 627 (E) dated the 29th August, 2008 with effect from 1st day of September, 2008, namely:—

In the said notification, in the Schedule,—

(a) In Chapter 52,—

(i) for the entry in column 5 against tariff item 520501, the entry "12" shall be substituted;

(ii) for the entry in column 5 against tariff item 520502, the entry "16" shall be substituted;

(b) In Chapter 54, for the tariff items 540201 and 540202 and the entries relating thereto, the following tariff items and the entries shall be substituted, namely :—

540201	Polyester texturised/ twisted yarn (Grey), manufactured from the Terminal Excise Duty paid filament yarn procured from outside, by a manufacturer who does not have the facilities in his factory (including plant and equipment) for the manufacture of filament yarns of Chapter 54.	KG	10.5%	15	2.2%	2.9
--------	--	----	-------	----	------	-----

540202	Polyester texturised/twisted yarn (Dyed) manufactured from the Terminal Excise Duty paid filament yarn procured from outside, by a manufacturer who does not have the facilities in his factory (including plant and equipment) for the manufacture of filament yarns of Chapter 54	KG	12.2%	20	2.6%	3.8
540203	Others (Grey)	KG	2.2%	2.9	2.2%	2.9
540204	Others (Dyed)	KG	2.6%	3.8	2.6%	3.8

[Explanation- For the purposes of tariff items 540201 and 540202, 'manufacture of filament yarns' means manufacture of filaments of organic polymers produced by,—

- (a) polymerization of organic monomers, such as, polyamides, polyesters, polyurethanes, or polyvinyl derivatives; or
- (b) chemical transformation of natural organic polymers (cellulose, casein, proteins or algae), such as, viscose rayon, cellulose acetate, cupro or alginates.].
- (c) In Chapter 60,

- (i) for tariff items 600101, 600102 and 600103 and the entries relating thereto, the following tariff items and the entries shall be substituted, namely :—

600101	Of Wool	Kg.	5.8%	19.8	3.1%	10.6
600102	Of Man Made Fibres	Kg.	8.9%	24.6	1.2%	3.3
600103	Of Cotton and others	Kg.	5%	15.6	1%	3.4

- (ii) for tariff items 600201, 600202 and 600203 and the entries relating thereto, the following tariff items and the entries shall be substituted, namely :—

600201	Of Wool	Kg.	5.8%	19.8	3.1%	10.6
600202	Of Man Made Fibres	Kg.	8.9%	24.6	1.2%	3.3
600203	Of Cotton and others	Kg.	5%	15.6	1%	3.4

- (iii) for tariff items 600301, 600302 and 600303 and the entries relating thereto, the following tariff items and the entries shall be substituted, namely :—

600301	Of Wool	Kg.	5.8%	19.8	3.1%	10.6
600302	Of Man Made Fibres	Kg.	8.9%	24.6	1.2%	3.3
600303	Of Cotton and others	Kg.	5%	15.6	1%	3.4

- (iv) for tariff items 600401, 600402 and 600403 and the entries relating thereto, the following tariff items and the entries shall be substituted, namely :—

600401	Of Wool	Kg.	5.8%	19.8	3.1%	10.6
600402	Of Man Made Fibres	Kg.	8.9%	24.6	1.2%	3.3
600403	Of Cotton and others	Kg.	5%	15.6	1%	3.4

- (v) for tariff items 600501, 600502 and 600503 and the entries relating thereto, the following tariff items and the entries shall be substituted, namely :—

600501	Of Wool	Kg.	5.8%	19.8	3.1%	10.6
600502	Of Man Made Fibres	Kg.	8.9%	24.6	1.2%	3.3
600503	Of Cotton and others	Kg.	5%	15.6	1%	3.4

- (vi) for tariff items 600601, 600602 and 600603 and the entries relating thereto, the following tariff items and the entries shall be substituted, namely :—

600601	Of Wool	Kg.	5.8%	19.8	3.1%	10.6
600602	Of Man Made Fibres	Kg.	8.9%	24.6	1.2%	3.3
600603	Of Cotton and others	Kg.	5%	15.6	1%	3.4

(d) In Chapter 82,

(i) for tariff item 8201 and the entries relating thereto, the following tariff item and the entries shall be substituted, namely:—

8201	Hand tools, the following: spades, shovels, mattocks, picks, hoes, forks and rakes; axes, bill hooks and similar hewing tools; secateurs and pruners of any kind; scythes, sickles, hay knives, hedge shears, timber wedges and other tools of a kind used in agriculture, horticulture or forestry	Kg.	10%	7.5	1.2%	0.85
------	---	-----	-----	-----	------	------

(ii) for the entry in column 5 against tariff item 821101, the entry “28” shall be substituted;

(iii) for the entry in column 5 against tariff item 821401, the entry “28” shall be substituted;

(iv) for the entry in column 5 against tariff item 821501, the entry “28” shall be substituted;

(e) In Chapter 87, for the entry in Column 5 against tariff item 871201, the entry “240” shall be substituted.

[F. No. 609/282/2008-DBK]

S. R. MEENA, Under Secy.

Note:— The principal notification No. 103/2008-Customs (N.T.) was published in the Gazette of India *vide* number G.S.R. 627(E), published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) dated the 29th August, 2008.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 जनवरी, 2009

सं. 3/2009-सीमा शुल्क

सा.का.नि. 9(अ).—केन्द्रीय सरकार सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 89/2005-सीमा शुल्क, दिनांक 4 अक्टूबर, 2005 जो भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में सं. सा.का.नि. 624((अ), दिनांक 4 अक्टूबर, 2005 को प्रकाशित की गई थी निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में शुरुआती पैरा में,—

(i) शर्त (i) के लिए निम्नलिखित शर्त प्रतिस्थापित की जाएगी अर्थात्:—

“(i) यह कि आयातक को ड्यूटी एनटाइटलमेंट पास बुक पची, अनुज्ञप्ति प्राधिकारी द्वारा विदेश व्यापार नीति के पैरा 4.3 के संदर्भ में या विशेष आर्थिक क्षेत्र नियमावली, 2006 के नियम 24 या नियम 30 के संदर्भ में जारी की गई है।”

(ii) शर्त (ii), (iii), (iv), (vi) और (viii) में शब्द “ड्यूटी एनटाइटलमेंट पास बुक” जहां कहीं भी आएंगे के लिए शब्द “ड्यूटी एनटाइटलमेंट पास बुक पची” प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[फा. सं. 605/208/2005-डीबीके]

एस. आर. मीना, अवर सचिव

टिप्पणी : अधिसूचना संख्या 89/2005 सीमा शुल्क, दिनांक 4 अक्टूबर, 2005 भारत के राजपत्र असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में सं. सा.का.नि. 624(अ), दिनांक 4 अक्टूबर, 2005 को प्रकाशित की गई थी और उनमें अंतिम संशोधन अधिसूचना संख्या 125/2008-सीमा शुल्क दिनांक 21 नवम्बर, 2008 सा.का.नि. 816(अ), दिनांक 21 नवम्बर, 2008 द्वारा किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd January, 2009

No. 3/2009-CUSTOMS

G.S.R. 9(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the

following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 89/2005-Customs, dated the 4th October, 2005, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 624(E), dated the 4th October, 2005, namely :—

In the said notification, in the opening paragraph,—

(i) for condition (i), the following condition shall be substituted, namely :—

“(i) that the importer has been issued a Duty Entitlement Passbook scrip by the Licensing Authority in terms of paragraph 4.3 of the Foreign Trade Policy or rule 24 or rule 30 of the Special Economic Zones Rules, 2006.”

(ii) in conditions (ii), (iii), (iv), (vi) and (viii), for the words “Duty Entitlement Pass Book”, wherever they occur, the words “Duty Entitlement Pass Book Scrip” shall be substituted.

[F. No. 609/282/2008-DBK]

S. R. MEENA, Under Secy.

Note : The notification number 89/2005-Customs, dated the 4th October, 2005 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 624(E), dated the 4th October, 2005 and was last amended vide notification number 125/2008-Customs dated the 21st November, 2008 vide number G.S.R. 816(E), dated the 21st November, 2008.